



प्रेस नोट थाना डिडौली

दिनांक 22.10.2021

श्रीमती पूनम पुलिस अधीक्षक अमरोहा के निर्देशन में शातिर अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी

थाना डिडौली पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित 20,000/- रुपये का ईनामी अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक 11.09.2021 को थाना डिडौली क्षेत्र के ग्राम असगरपुर में मौके कर गौवंश के साथ दो अभियुक्त 1.आमिर पुत्र अन्सार हुसैन 2. मौ0 फहद खान पुत्र रहीसुल हसन नि0गण ग्राम असगरपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया था जिनके अन्य तीन साथी 1. कादिर पुत्र भूरे 2. गुलाम पुत्र इस्लाक अहमद 3. शाहिदा उर्फ भूरिया पत्नी अंसार हुसैन मौके पर फरार हो गये । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना डिडौली पर मु0अ0सं0 365/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0, 34 भादवि बनाम 1. आमिर 2. मौ0 फहद 3. कादिर 4. गुलाम 5. शाहिद पंजीकृत किया गया ।

इसी क्रम में आज दिनांक 22.10.2021 को थाना डिडौली पुलिस द्वारा सूचना पर वांछित अभियुक्त गुलाम पुत्र इस्लाम अहमद नि0 ग्राम सहसपुर अलीनगर थाना डिडौली जनपद अमरोहा को समय करीब सुबह 04.00 बजे सम्भल चौराहा पर पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर व एक कारतूस 315 बोर बरामद हुए ।



उल्लेखनीय है कि अभियुक्त गुलाम उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी एवं घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती पूनम द्वारा पुलिस टीम गठित कर 20,000/- रुपये का ईनाम घोषित किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. गुलाम पुत्र इस्लाक अहमद निवासी सहरपुर अलीनगर थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. एक तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलाम:-

1. मु0अ0सं0 365/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0, 34 भादवि थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0सं0 409/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री रमेश सहरावत थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 संजीव कुमार थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
3. का0 1065 नरेन्द्र रावत थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।
4. का0 131 दिवशाद थाना डिडौली जनपद अमरोहा ।

